

PNC Infratech Limited

An ISO 9001: 2015 Certified Company

Ref No: PNC/SE/39/21-22

To,
The Manager
The Department of Corporate Services
BSE Limited
Floor 25, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai-400 001
Scrip code:539150

Date: 08.09.2021

To,
The Manager
The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400 051
Scrip code: PNCINFRA

Dear Sir,

Sub: <u>Public Notice for completion of dispatch of Notice of the 22nd Annual General Meeting of the Company and Annual Report for the Financial Year 2020-21</u>

Pursuant to Rule 20(4)(V) of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management & Administration) Amendments Rules, 2015, the Company has published public notice as advertisement in Newspapers viz. Financial Express and Jansatta confirming inter alia:

- Completion of dispatch of Notice of 22nd Annual General Meeting (22nd AGM Notice) and Annual Report for the Financial Year 2020-21 on September 07, 2021;
- Relevant date for voting through electronic means and e-voting information;
- Book Closure details for 22nd AGM of the Company; and
- Contact details of the person responsible to address the grievances connected with the electronic voting.etc

In compliance with Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of above mentioned public notice published in today's newspapers i.e. on Wednesday, September 8, 2021.

The said public notice in newspapers has also been uploaded on the website of the Company at www.pncinfratech.com.

This is for your information and record.

Thanking you,

Tapan Jain

Company Secretary & Compliance O

For PNC Infratech Limited

ICSI M. No.: A22603

Encl: as above

Corporate Office: PNC Tower, 3/22-D, Civil Lines, Bypass Road, NH-2, Agra-282002

Regd. Office: NBCC Plaza, Tower II, 4th Floor, Pushp Vihar, Sector-V, Saket New Delhi--110017 (India) Tel.: 91-562-4054400 (30 Lines) 91-562-4070000 (30 Lines)

91-562-4070000 (30 Lines)

Tel.: 91-11-29574800 (10 Lines) 91-11-29566511, 64724122 Fax: 91-562-4070011

Fax: +91-11-29563844

11 Email : ho@pncinfratech.com

Email: delhioffice@pncinfratech.com Web.: www.pncinfratech.com CIN: L45201DL1999PLC195937

FEDERAL-MOGUL ANAND BEARINGS INDIA LIMITED TENNECO

CIN: U29199HR2006PLC04326 Registered Office: 10 Floor, Paras Twin Towers, Tower-B, Sector-54, Golf Course Road, Gurugram-122002, Tel.: +91 124 4784530, Fax: +91 124 4292840, E-mail: abhishek.nagar@tenneco.com

NOTICE

The 15" Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, 30" September, 2021 at 10:00 AM at the Registered Office of the Company at 10th Floor, Paras Twin Towers, Tower-B, Sector-54, Golf Course Road, Gurugram-122002, to transact the businesses mentioned in the 15" AGM Notice dated 4" September, 2021. The Notice of the 15th Annual General Meeting and instructions for remote e-voting along with Attendance slip and Proxy form and Annual Report for FY 2020-21 is being sent through electronic mode to all members whose email ids are registered with the Company/ Depository Participant(s).

As per section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended by Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company is providing facility for voting by electronic means and the businesses set out in Notice of the 15° Annual General Meeting. may be transacted through such voting. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from place other than Annual General Meeting ("remote e voting") will be provided by M/s KFin Technologies Private Limited (KFINTECH).

The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the said Rules as amended, are given hereunder:

a) The Ordinary and Special businesses as set out in the Notice of the 15" Annual General Meeting may be transacted through electronic

 b) The remote E-Voting shall begin on Monday, 27th September, 2021 at 09.00 a.m. and end on Wednesday, 29" September, 2021 at 05.00 p.m. The remote E-voting shall not be allowed beyond 05.00 p.m. on Wednesday, 29th September 2021.

c) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the 15" AGM is Thursday, 23" September 2021.

d) Members whose names are recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the 15th Annual General Meeting through ballot

e) The member who have acquired shares and become members of the Company after dispatch of Notice and holding shares on the cut-off date i.e. Thursday, 23" September, 2021 may obtain LOGIN ID and PASSWORD by sending a request at evoting@kfintech.com or call on toll free no. 18003454001. However, if you are already registered with KFin Technologies Private Limited (KFINTECH) for remote e-voting then members may use your existing user ID and password for casting your vote through remote e-voting.

f) The facility for voting through ballot shall be made available at the 15" Annual General Meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot papers.

g) Notice of the 15th Annual General Meeting is available on the website of KF in Technologies Private Limited (KFINTECH) i.e. www.kfintech.com.

h) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting kfintech.com or write an e-mail toevoting@kfintech.com/ einward.ris@kfintech.com. The members may participate in the general meeting even exercising

his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

For Federal-Mogul Anand Bearings India Limited

Place: Gurugram Dated: 04" September, 2021

(Manish Chadha)

LOYAL equipments limited (CIN: L29190GJ2007PLC050607) Read, Office: Block No. 35/1-2-3-4, Village-Zak, Dahegam, Gandhinagar-382330,

Gujarat, India. Tel No.: +91-2718-247236, Fax No.: +91-2718-269033 E-mail: cs@loyalequipments.com, Website: www.loyalequipments.com

NOTICE OF THE 14TH ANNUAL GENERAL MEETING, **BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING**

The Notice is hereby given that the 14th Annual General Meeting ('AGM') of Loyal Equipments Limited ('the Company') will be held on Thursday, September 30, 2021 at 11.00 A.M. through Video Conferencing ('VC') / other Audio-Visual Means ('OAVM') to transact the business as set out in the Notice of AGM, ir compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read General Circular No. 20/2020 dated 5^t May, 2020, read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020 General Circular No. 17/ 2020 dated 13th April, 2020, General Circular No. 20/2020 dated 05th May 2020 and General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (collectively referred to as "said Circulars") and SEBI Circular No SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue.

The electronic copy of Notice and Annual Report have been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Depository Participant(s) The dispatch of Notice of AGM and Annual Report for the year 2020-21 has been completed on September 07, 2021. The Annual Report of the Company for the financial year 2020-21 and Notice of AGM are also available on the website of the Company at www.loyalequipments.com and the website of BSE at www.bseindia.com. The requirement of sending physical copies of Annua Report have been dispensed vide MCA Circulars and SEBI circular as mentioned above.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the register of members and share transfer books of the Company wil remain closed from Friday, September 24, 2021 to Thursday, September 30 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Pursuant to Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), the Company is providing evoting facility (remote e-voting) to the shareholders to enable them to exercise their right to vote by electronic means in respect of businesses to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has engaged the services of CDSL for providing e-voting facility to Shareholders.

Further, the notice of the AGM containing User ID & Password and the

instructions for e-voting have already been sent to the members. The e-voting platform will open for voting from 9.00 A.M. on Monday, September 27, 2021 and ends at 5:00 P.M. on Wednesday, September 29, 2021. Shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off date i.e. Thursday, September 23, 2021 may cast their vote electronically in respect of business to be transacted at the AGM. E-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and hold shares as on Cut-Off date, may obtain the User ID and password for e-voting by sending request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or evoting@linkintime.co.in.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may also participate in meeting through Video Conferencing ('VC') / other Audio Visual Means ('OAVM') but shall not entitled to cast their Vote again.

Process of those Shareholders whose E-mail Addresses are not registered with the Depositories for obtaining login credentials for E-Voting for the Resolutions Proposed in the Notice:

1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No. Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) by email to Company/RTA For Demat shareholders- please provide Demat account details (CDSL-16

digit beneficiary ID or NSDL – 16 digit DPID + CLID), Name, client Master or copy of Consolidated Account Statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) to Company/RTA Email ID. Any gueries or grievances connected with e-voting may be addressed to Mrs

Akanksha Aswani, Loyal Equipments Limited, Block No.35/1-2-3-4, Village -Zak, Dahegam, Gandhinagar-382330, Gujarat, India or mail at cs@loyalequipments.com or Tel. No. +91-2718-247236. Further, the Company has appointed, Mr. Arpit Gupta, Partner of M/s. A Y & Company Practicing Chartered Accountants, Jaipur as Scrutinizer for conducting the electronic voting process and voting process at the AGM, in fair and transparent manner.

Date: September 07, 2021

Place: Dahegam, Gujarat

financialexp.epag.in

For Loyal Equipments Limited

Jyotsanaben Rameshchandra Patel (Whole-time Director) (DIN-01307770)

Place: New Delhi Date: 08.09.2021

The Federal Bank Ltd.
46, North Avenue, Punjabi Bagh West

Your Perfect Banking Partner

Branch Manager, (The Federal Bank Ltd.)

New Delhi-110026. Regd. Office. Alwaye, Kerala NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD Gold loan accounts, with the under mentioned branch of the Bank, which are overdue for redemption and which have not been regularised so far in spite of repeated notices, will be put for sale in the branch on or

ACCOUNT NUMBER BRANCH/VENUE | SI. NAME & The Federal Bank Ltd. Ruchi Kapur : 16785600001273 46, North Avenue Jagdish Krishna : 16785600001299 Punjabi Bagh West Amit Parashar : 16786400002891 New Delhi-110026.

ROLLATAINERS LIMITED

CIN: L21014HR1968PLC004844 Regd. Office: Plot No. 73-74, Phase- III, Industrial Area, Dharuhera. District- Rewari Rewari -123106 | Phone: 01274-243326, 242220, E-mail: cs.rollatainers@gmail.com | Website: www.rollatainers.in

INFORMATION REGARDING FORTY NINTH (49TH) ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFRENCING OTHER AUDIO VISUAL MEANS AND NOTICE OF BOOK CLOSURE

INFORMATION REGARDING FORTY NINTH (491") ANNUAL GENERAL MEETING The Forty-Ninth (49") Annual General Meeting ("AGM") of the members of ROLLATAINERS LIMITED ("the Company") will be held at 05:30 P.M. (Indian Standard Time) on Thursday, September 30, 2021 through video conferencing ("VC")/other audio visual means ("OAVM") in Compliance with the applicable provisions of the Companies Act 2013 read with General Circular no 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular no. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular Issued no. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular no 02/2021 dated January 13, 2021 by Ministry of Corporate Affairs, Government of India (hereinafter collectively referred as "MCA Circulars"), the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 & Circular no. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular no. SEBI/HO/CFD/ CMD2/ CIR/P/ 2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), to transact the business as set out in the notice of AGM.

In pursuance of the MCA Circulars and SEBI Circulars, Notice of AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2019-20 comprising Audited Financial statements for the financial year 2019-20, Auditor's Reports, Board's Report and other documents required to be attached thereto will be sent only through email to those members whose email addresses are registered with the Company or with the depositories/ depository participants. These documents will also be available on the website of the Company at www.rollatainers.in/investors.php and the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the website of Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com.

The Company will be providing to its members a facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the AGM by electronic means ("e-Voting") and the business set out in the notice of AGM may be transacted through e-Voting. The Company has engaged CDSL to provide to the members, the facility of remote e-Voting and the facility of joining/attending AGM through VC/OAVM and e-Voting at the AGM. The process and manner of remote e-Voting, joining/ attending the AGM through VC/OAVM and e-Voting at AGM, for members holding shares in demat form or physical form and for members who have not registered their email address, has been provided in the notice of AGM. The members attending the AGM through VC/OAVM, who have not cast their vote through remote e-Voting, shall be allowed to vote through e-Voting at the AGM.

A member whose email address is not registered with the Company or depository / depository participant and who wish to receive the notice of AGM and Annual Report 2019-20 through email and obtain User ID and password to participate in the AGM through VC / OAVM and vote through e-Voting system at the AGM or through remote e-Voting, can get his/ her / its email address registered by following the procedure mentioned below:

In case the shares of the Company are held by a member in physical form, such member shall submit a scanned copy of signed request letter mentioning his/her/its email address, Account name, folio number and complete address along with self-attested copies of Permanent Account Number ("PAN Card") and AADHAAR Card by email to investor@beetalfinancial.com and send these documents to the Share Transfer Agent of the Company Le M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd, Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir Village, B/H

In case the shares of the Company are held by a member in dematerialized form, such member shall register his/her/ its email address in the demat account maintained with the depository participants Further, such member can temporarily get the email address registered with the Company to receive the notice of AGM and Annual Report 2019-20 through email and for obtaining User ID and Password for participation in the AGM through VC / OAVM and vote through e-Voting system in the AGM or through remote e-Voting, by submitting scanned copy of a signed request latter mentioning his/ her/ its email id, address, name, DP ID and Client ID (16 digit DP ID+ Client ID or 18 digit Beneficiary ID) along with self-attested scanned copies of Client Master or Consolidated Demat Account statement. PAN Card and ADHAAR Card through email to RTA email id (investor@beetalfinancial.com), NOTICE OF BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, September 24, 2021 to Thursday, September 30, 2021 (both days Inclusive) for determining the eligibility of shareholders for attending the forthcoming Annual General Meeting of the Company scheduled to be held at 05:30 P.M. (Indian Standard Time) on Thursday, September 30, 2021 through video conferencing/ other audio visual means). For Rollatainers Limited

Aditi Jain

Date: 07.09.2021 (Company Secretary & Compliance Officer) Place: New Delh

PG ELECTROPLAST LIMITED (CIN: L32109DL2003PLC119416)

Regd. Office: DTJ-209, 2nd Floor, DLF Tower-B, Jasola, New Delhi-110025 Corporate Office: P-4/2 to 4/6, Site-B, UPSIDC Industrial Area, Surajpur, Greater Noida, Dist. Gautam Budh Nagar (U.P.) -201306 Tel No: +91-120-2569323 Email: investors@pgel.in Fax No: +91-120-2569131 Website: www.pgel.in

NOTICE OF THE 19TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING & BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the 19th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of the Company will be held on Wednesday, September 29, 2021, at 11.00 A.M. through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act'), MCA circulars dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, December 31, 2020 and SEBI circular dated May 12, 2020 and January 15, 2021 (collectively referred to as 'Circulars'), to transact the business as set out in the Notice convening the AGM. The members will be able to attend the AGM through VC/OAVM at https://emeetings.kfintech.com. Members participating in the meeting through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Act.

In compliance with the Circulars, Notice of the AGM and Annual Report 2020-21 have been emailedonly to those members of the Company whose email addresses are registered with Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the website of the Company i.e. www.pgel.in and the websites of the stock exchanges where the shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com as well as on the website of KFin Technologies Private Limited (KFin) i.e. https://evoting.kfintech.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [Listing Regulations], the Company is providing the facility to its members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on September 22, 2021 (cutoff date) for casting their votes electronically in respect of the business to be transacted at the AGM. The Company has appointed Ms. Puja Mishra of M/s Puja Mishra & Co., Practicing Company Secretary as the scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not casted their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Information and instructions including details of the user id and password relating to e-voting have been sent to the members through email. The same login credentials may be used for attending the AGM through VC/OAVM.

Detailed process and manner of Remote e-voting and e-voting at the AGM by the members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email address is provided in the Notes to the AGM Notice. As per the SEBI circular dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, individual members holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Members are advised to update their mobile number and email ld in their demat accounts in order to access e-voting facility. Individual members holding securities in physical mode are allowed to vote through e-voting platform https:// evoting.kfintech.com. Other members except individual members are also allowed to vote through e-voting platform https://evoting.kfintech.com.

The remote e-voting period commences on September 25, 2021 (09.00 A.M.) and ends on September 28, 2021, (5.00 P.M.). The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. During the remote voting period, members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. September 22, 2021, may cast their votes electronically. The votes once cast by the members, cannot be changed or cancelled. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e., September 22, 2021, such member can also use e-voting facility using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL. Members having demat accounts in NSDL & CDSL facing any technical issue in login for e-voting can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 18001020990 and 1800224430 AND can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 022-23058542-43. Members having any queries regarding e-voting during the AGM or requiring technical assistance before or during the AGM to access and participate in the Meeting may contact KFin at emeetings@kfintech.com or Helpline:18003094001. Members are advised to keep their email ID and mobile number registered with the Depository/ Depository Participant to receive timely communications.

NOTICE is further given that pursuant to provisions of Section 91 of the Act and provisions of Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from September 23, 2021 to September 29, 2021 (both days inclusive) for the purpose of the AGM

> For PG Electroplast Limited Sanchay Dubey

Dated: September 07, 2021 Company Secretary

"IMPORTANT

Place: Greater Noida

Whilst care is taken prior to acceptance advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

PANAFIC INDUSTRIALS LIMITED CIN: L45202DL1985PLC019746

Regd. Off: 23, II Floor, North West Avenue, Club Road, West Punjabi Bagh,

New Delhi-110026 E-Mail: panafic.industrials@gmail.com, Website: www.panaficindustrialsltd.com **Tel. No.:** (011) 25223461, 25221200

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Company for the financial year ended on 31st March, 2021 will be held on Thursday, 30.09.2021 at 09.00 A.M. at the registered office of the Company at 23, IInd Floor, North West Avenue, Club Road, West Punjabi Bagh, New Delhi-110026. The soft copies of the Notice of the AGN and the Annual Report of the Company for the financial year ended on 31st March, 2021 has been sent to all the members at their registered E-mail Id's with the Company/Depositar Participant/Skyline Financials Services Private Limited (RTA) of the Company in compliance with the applicable laws.

NOTICE

The Company has extended e-voting facility to the Members holding shares in physical and demat form as on September 23, 2021 (cut-off date). They may cast their votes electronically through e-voting services provided by CDSL. The e-voting process has been explained in detail in the AGM Notice. The e-voting period commences on 27th September 2021 at 9.00 a.m. and ends on 29th September 2010 at 5.00 p.m. The e-voting shall not be permitted beyond the said date and time. Any grievances in respect of e-voting may be addressed to CDSL at Ph.: 1800-200-55-33 or its Email-id:helpdesk.evoting@cdslindia.com with a copy to the undersigned at panafic.industrials@gmail.com for prompt attention. The Notice of the 36th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2020-21 will also be made available on the Company's website www.panaficindustrialsltd.com and website of the Stock Exchange at BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of the Company's RTA at www.skylinerta.com.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 24.09.2021 to Thursday, 30.09.2021 (both days inclusive), for the purpose of For Panafic Industrials Limited

Priti Gupta

Place: Delhi Date: 07/09/2021 **Company Secretary & Compliance Office** M.No: A29675

HARDWYN INDIA LIMITED

Regd. Office: B-101, Phase-1, Mayapuri, South West Delhi, New Delhi - 110064 Website: www.hardwyn.com. Telephone: 011-28115352, 28114972 NOTICE OF 4th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that:

Delhi - 110064 to transact the business as set forth in the Notice of AGM 2. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), the Company is providing its members the facility to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"), provided by CSDL and the business may be transacted through such voting, on all the

for 2021 has been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date 17th

September, 2021, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the a place other than venue of the AGM (remote e-voting). All the members are informed that:

. The remote e-voting shall commence on 26thDay of September, 2021 at 9:00 A.M.;

through shall not be allowed;

/. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 17thDa of September, 2021.

V. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 17thDay of September, 2021 may obtain the Login ID and Password by sending a request a thelp desk.evoting@cdslindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting their existing user ID and password can be used for casting vote;

a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5.00 P.M. on 28th Day of September, 2021 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to

) the facility for voting through ballot paper shall be made available at venue of the AGM;

d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.

CDSL's websitewww.evotingindia.com. For any queries/ grievances related to e-voting shareholders may contact to: Skyline Financial Service Private Limited, D-153-A, 1st Floor, Okhla Industries Area, Phase -1, New Delhi-110020, E-

5. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall be closed from Friday

17th Day of September 2021 to Wednesday, 29th Day of September 2021 (both day inclusive). For HARDWYN INDIA LIMITED

(Formerly known as Garv Industries Limited

Place: New Delhi

Date: 06.09.2021

CIN: L74899DL1990PLC042302 Regd Office: B1/E-24 Mohan Co-operative Industrial Area, Mathura Road, New Delhi- 110 044

Tel.No. 91-11-41679238, Fax. No. 91-11-26940969 E-mail: drfresh@drfreshassets.com; Website: www.drfreshassets.com NOTICE TO MEMBERS OF 31ST ANNUAL GENERAL MEETING.

BOOK CLOSURE AND E VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting of the Members of Dr Fresh Assets Limited will be held on Sunday, 26th September, 2021 at 4.00 P.M. by way of Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means ("OAVM") in accordance with the applicable provisions of the Companies Act 2013, and the rules made thereunder and the Securitie and Exchange Board of India(Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015, and in accordance with the Circular No. 20/2020 dated May 05,2020 read with Circular no. 14 2020 dated April 08,2020 and Circular no. 17/2020 dated April 13,2020 and General Circula dated 02/21 dated 13th January 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circula no. SEBI/HO/CFD/CMDI/CIR/P/2020/79 dated May 12,2020 read with Circular no. SEBI/HO/CFD/CMDI/CIR/P/2020/79 dated May 12,2020 read with Circular no. CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15,2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "Relevant Circulars"), without the physica

presence of the members at a common venue. M/s Mas Services Ltd, New Delhi, Registrar and Share Transfer Agent, of the Company wi

In compliance with the relevant circulars, the Notice of AGM and the Annual Report 2020-2021 including the Financial Statements for the Financial Year 2020-21, along with the Director's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, and which includes the process and manner of attending the AGM through VC and e-voting and other documents has been sent by email on 3rd September 2021, to those members whose email addresses are registered with the Company, or Depository Participants or Registra and Share Transfer Agent. The requirements for sending physical copy of the Notice of the 31st AGM and Annual Report to the members have been dispensed with vide MCA Circular s and SEBI Circular. The Annual Report can be downloaded from the Company's websit at www.drfreshassets.com and the website of the Stock Exchange i.e. MSEI Limited a www.msei.in. Members holding shares either in physical form or dematerialised form as o the cut-off date of 19th September 2021, may cast their vote electronically on the ordinary and special business, as set out in the Notice of the 31st AGM through electronic voting system ('remote e-voting") of National Securities Depository Limited ("NSDL"). All the members are

(i) the ordinary and special business as set out in the Notice of the 31st AGM will be transacted

(ii) the remote e-voting shall commence on Thursday, 23rd September 2021 at 9 a.m. IST (iii) the remote e-voting shall end on Saturday, 25th September 2021 at 5 p.m. IST (iv) the cut off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or through the e-voting system during the 31st AGM is 19th September 2021

(v) any person, who becomes member of the company after sending the notice of the 31s iabdo yem, 1202 prember 2021, AGM by email and holding shares as on the cut-off date i.e the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in . However if a person is already registered with NSDL for remote e-voting, then existing user ID and password car be used for casting vote.

the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;(2).the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 31st AGM may participate in the 31st AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast vote again through the e-voting system during the 31st AGM ;(3), the members participating in the 31st AGM and who had no cast their vote through remote e-voting shall be entitled to cast their vote through e-voting system (Through insta poll) during the 31st AGM and ;(4) the person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories on the cutoff date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, participating in the 31st AGM through VC/OAVM facility and e-voting during the 31st AGM.

vi) members may note that(1) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after

has not recommended any dividend in the Annual General meeting. Further, pursuant to the provisions of section 91 of the Act and the rules framed thereunder and regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 20th September, 2021 to Sunday, 26th September, 2021 (both days inclusive).

register themselves as a speaker and may send their request mentioning their name, Dema account number/folio number, email id, mobile number at drfresh@drfreshassets.com and mas serv@yahoo.com, not later than 48 hours prior to AGM. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask question: during the meeting.

Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may

replied by the company suitably In case of any queries related to E-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download

22 24994545, +91 22 24994559, who will also address the grievances connected with the In case of any assistance regarding attending the meeting, please contact Mr. Sharwan Mangla at info@masserv.com or 011-26387281,82,83.

Vijay Prakash Pathak

(Whole Time Director) (DIN: 07081958

INNOVATIVE TECH PACK LIMITED

CIN: L74999HR1989PLC032412 Registered Office: Plot No. - 51, Roz Ka Meo Industrial Area, Sohna, Distt. Gurugram 122103 (Harvana) Website: www.itplgroup.com, Email.: grievence@itplgroup.com Tele. No.: 0120-7195236-239,

NOTICE OF THE 32ND ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION

AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of Innovative Tech Pack imited will be held at 09:00 AM on Thursday, 30th September, 2021 at Hakim Ji Ki Choupal Opp. Batra Hospital, Vill. Ujina, Police Station Nuh, Sohna, Haryana-122103 to transact such ousiness as set out in the Notice of AGM ("Notice"). Notice alongwith Annual Report for 2020-21 have been sent through electronic mode to all the

nembers whose email id's are registered with company/Depository Participants. The dispatch of

Notice and Annual Report (both physical and electronic) was completed on 07th September, 2021. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from friday, September 24, 2021 to Thursday, September 30, 2021 (both days inclusive) for the purpose of the AGM. n compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide all its members holding shares either in physical or dematerialized

form at the close of business hours on the cut off date i.e. Thursday 23rd September, 2021, the facility to exercise their vote electronically on the business as set out in the Notice through remote e-voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The procedure and nstructions for remote e-voting has been given under the Notice. The members are informed that -The e-voting period will commence on Monday, 27th September, 2021 at 09:00 am and ends

on Wednesday, 29th September, 2021 at 05:00 pm. The remote e-voting will be disabled by CDSL beyond the said date and time. The cut off date determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is

Thursday 23rd September 2021.

shares as on the cut-off date i.e. Thursday 23rd September, 2021, may obtain the User lo and password by following the same instruction for remote e-voting as mentioned in the Notice The members who cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting. Vote once cast by the members shall not be

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice and holding

allowed to be changed subsequently. The facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM to the members who have not cast their vote through remote e-voting and are present at the AGM.

A person, whose name is recorded in the Register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut off date i.e. Thursday 23rd September 2021 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/voting at the AGM

The Notice along with Annual Report are available at the Company's website viz www.itplgroup.com. The Notice is also available on the website of CDSL viz www.cdslindia.com

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43. COVID note and Precautions while holding AGM

All the members who wish to attend the AGM are requested to wear mask throughout the

continuance of the meeting. Temperature of all the attendees shall be checked at the entrance of the venue of the meeting and anyone found having fever shall not be allowed to attend. Any shareholder having symptom of infection of COVID19 are requested not to attend the meeting Company has made arrangements for proper sanitization of members who will be entering the venue for the meeting. Hand sanitizers will also be installed at the entrance of the venue of the neeting and at number of places in the premises. The Company will provide masks in case a nember arrives at the venue without a mask or if any member needs a new Mask.

Place: Noida

Dated: 07th September, 2021

For Innovative Tech Pack Limited

Ketineni Sayaji Rao Chairman cum Director DIN 01045817

PNC INFRATECH LIMITED

CIN- L45201DL1999PLC195937 REGD. OFFICE: NBCC Plaza, Tower-II, 4th Floor, Pushp Vihar, Sector-V, Saket, New Delhi-110017 CORP. OFFICE: 3/22-D, Civil Lines, Agra-Delhi Bypass Road, Agra-282002 Contact No.: 011-29574800, 0562-4054400, Fax No.:0562-4070011, Website: www.pncinfratech.com E-mail: complianceofficer@pncinfratech.com

Notice of the 22nd Annual General Meeting, **Book Closure and Electronic Voting Information**

NOTICE is hereby given to the Members of the Company and to all the persons that 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, September 29, 2021 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC')/Other Audio Visual Means ('OVAM') in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder (the 'Act'), provisions of the Securities Exchange Board Of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and provisions of General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and all other applicable provision issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ('MCA') read with the SEBI Circular dated May 12, 2020 and dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") to transact the Business, as set out in the Notice of the AGM (AGM Notice) without the

In compliance with the aforesaid circulars, the AGM Notice and the Annual Report of the company for the financial year 2020-21, has been electronically sent on Tuesday, September 7, 2021 by the email to those shareholders whose email addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited/ Depository Participant(s). The said Annual Report including AGM Notice is also available on the website of the Company at www.pncinfratech.com, on the website of M/s Link Intime India Private Limited (Link Intime/"RTA") at https://instavote.linkintime.co.in and on the website of the Stock Exchanges i.e BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at

read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, provisions of Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing its shareholders

Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulation') that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 23, 2021 to Wednesday, September 29, 2021 (both days inclusive) for the purpose of said AGM

Mr. Deepak Gupta, Company Secretary, Partner of DR Associates (Membership No. FCS 5339; CP No. 4629), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting through electronic means in a fair and transparent manner. The result of voting will be declared within two working days from the conclusion of AGM i.e. on or before October 01, 2021 and results so declared along with the onsolidated Scrutinizer report will be placed on the Company's website (www.pncinfratech.com) and Link Intime's website

The Shareholders are hereby requested to note that:

a. A person, whose name is recorded in the Register of Members/Beneficial owners maintained by the Depositories / RTA as on the cut - off date i.e. Wednesday, September 22, 2021 shall only be entitled to avail the facility of remote e - voting or e - voting

26, 2021 at 9.00 AM and will end on Tuesday, September 28, 2021 at 5.00 P.M. During this period, the member(s) of the Company may cast their votes electronically on resolutions mentioned in the AGM Notice. Voting through remote e - voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on September 28, 2021. Once the vote on a resolution is cast by a member, any subsequent change shall not be allowed.

date i.e. Wednesday, September 22, 2021. Only those Shareholders, who will be present in the AGM through

VC/OAVM and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the 22nd

may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Any person, who becomes a member of the Company after sending

Shareholders whose email id is not registered, may refer "Registration of email ID" as detailed in AGM Notice.

Questions (FAQs') and InstaVote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under help section or Contact Mr. Rajiv Ranjan , Assistant Vice President-e-voting on Phone: +91 22 49186000; email: enotices@linkintime.co.in or contact undersigned by writing an e-mail to complianceofficer@pncinfratech.com, @Phone no. 0562-4054400. For PNC Infratech Limited

Date: 7th September, 2021 Place: Agra

Shareholders may note that the Board of Directors at their meeting held on 30th June 2021

Shareholders who have questions may send their questions in advance mentioning their name Demat account number/folio number, email id, mobile number at drfresh@drfreshassets.com, at least 10 days before the date of AGM. The same will be

section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager or Ms. Soni Singh, Asst Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, a evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or SoniS@nsdl.co.in or at telephone nos.:- +91

For Dr Fresh Assets Limited

(Formerly Known as Garv Industries Limited) CIN: L74990DL2017PLC324826

REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE The 4th Annual General Meeting (AGM) of members of the Company will be held on Wednesday, 29thDay of September, 2021 at 11:00 A.M. at B-101, Phase-1, Mayapuri, South West Delhi, New

resolutions set forth in the Notice of AGM: Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2021 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same are also available on the website of the Company at www.hardwyn.com. Notice of AGM and Annual Report

AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronics

III. The remote e-voting shall end on 28th Day of September, 2021 at 5.00 P.M. and thereafter E-Voting

the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and

VII. The Notice of AGM is available on the Company's website www.hardwyn.com. and also on the

Rubaljeet Singh Saya **Managing Directo** DIN: 00280624

DR FRESH ASSETS LIMITED

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013

physical presence of the Shareholders at a common venue.

the e - voting facility to cast their votes on all the resolutions set out in the AGM Notice by using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (i.e. remote e - voting). The Company will also provide a facility of e-voting to shareholders during the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting. The Company has entered into an arrangement with Link Intime for providing the remote e- voting and e-voting during the AGM. In terms of Section 91 of the Act, Rules made there under and

(https://instavote.linkintime.co.in).

The remote e-voting period will commence on Sunday, September

The voting rights of the shareholders shall be in proportion to their shares in paid-up share capital of the Company as on the cut - off

The shareholders who have cast their vote through remote e-voting

of the AGM Notice by email and holding shares as on Wednesday, September 22, 2021, may refer to the AGM Notice and obtain the login ID and password from Link Intime by sending a request at enotices@linkintime.co.in.

In case shareholders/members have any queries regarding attending AGM/e-voting, they may refer the Frequently Asked

> Tapan Jain Company Secretary & Compliance Officer ICSI M. No.: A22603

New Delhi

Place: Delhi

Date: 4th September, 2021

न्यू ऐरा लिजिंग एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड

पंजीकत कार्यालय: 981. अग्रवाल मिलेनियम टॉवर-II. नेताजी सभाष प्लेस डिस्टिक्ट सेन्टर, वजीरपर, टीवी टॉवर के सामने, पीतमपुरा, नई दिल्ली - 110034

CIN: L67120DL1984PLC018800; दूरभाष: 011-69999350; ई—मेल: neweraleasingfinance@gmail.com; वेबसाइट: www.neweraleasingfinance.com

एतदद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि न्यू ऐरा लिजिंग एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड ("कम्पनी") की सैतीसवीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) वीरवार, 30 सितम्बर, 2021 को दोपहर 3:00 बजे उनके पंजीकृत कार्यालय 981, अग्रवाल मिलेनियम टॉवर-II, नेताजी सुभाष प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, वजीरपुर, टीवी टॉवर के सामने, पीतमपुरा, नई दिल्ली - 110034 में एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय निष्पादन हेतु आयोजित की जायेगी। एमसीए परिपत्र दिनांक जनवरी 13, 2021 साथ में पठित परिपत्र दिनांक अप्रैल 08, 2020, अप्रैल 13, 2020 एवं मई 05, 2020 के अनुसरण में एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों, जिनके ई-मेल पते कम्पनी के सदस्यों की पंजिका/िडपाजटरीज के रिकार्ड में 03 सितम्बर, 2021 को अंकित थे, को उनके पंजीकृत ई-मेल पर भेज दी गई है। कोविड 19 की महामारी की स्थिति में आवश्यक अपेक्षित सावधानियों को बरतने के बाद एजीएम को आयोजित की जायेगी।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 साथ में पिठत (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमन, 2014 के नियम 20 जैसा कि संशोधित के अनुसरण एवं सेबी (सूची दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 में पुनः सूचना प्रदान की जाती है किः 1. कम्पनी अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग की सविधा उपलब्ध करा रही है ताकि वे अपना वोट इलेट्रानिकली एजीएम की सूचना में

- वर्णित मदों पर दे सकें। 2. ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 को प्रातः 09:00 बजे प्रारम्भ होगी
- 3. ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को सायं 05:00 बजे समाप्त होगी।
- 4. कट ऑफ तिथिः 23 सितम्बर 2021।
- एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों की पंजिका अथवा डिपाटरीज द्वारा बनाये गई लाभदाई स्वामी की पंजिका में कट–ऑफ तिथि को अंकित है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ साधारण बैठक में वोटिंग के हकदार होंगे।
- 6. जिस व्यक्ति ने सूचना को भेजने के बाद शेयर्स अर्जित किये हों एवं कम्पनी का सदस्य बना हो लेकिन कट-ऑफ तिथि से पहले, ई-वाटिंग की सुविधा हेतु लॉग इन आईडी एवं पास वर्ड प्राप्त करने के लिए एजीएम की सूचना में दिये गये अनुदेशों का पालन करें। 7. कट-ऑफ तिथि को कम्पनी के भौतिक रूप में धारित सदस्य अथवा डिमैटरीलाइज प्रपत्र में धारित सदस्य ई-वोटिंग की सविधा
- अथवा साधारण बैठक में मतदान प्रक्रिया के हकदार होंगे। उपरोक्त तिथि एवं समय के उपरान्त ई-वोटिंग की अनुमति नही दी जायेगी।
- 9. एक सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट देने के बाद वार्षिक साधारण बैठक में भाग ले सकता है लेकिन फिर से बैठक में वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
- 10. इलेक्ट्रानिक माध्यम से वोटिंग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की पूछताज अथवा शिकायत के लिए सदस्य लगातार प्रश्न पूछने (एफएक्युज) एवं ई-वोटिंग के डाऊनलोड भाग http://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध गाइड को संदर्भित कर सकते है अथवा सम्पर्क करें:-
 - क) श्री प्रवीन शर्मा डी--153, प्रथम मंजिल, ओखला इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस- ।, नई दिल्ली 110 020 ई-मेल: parveen@skylinerta.com, दूरभाष: 011-30857575
- ख) श्री रास विहारी शर्मा (प्रबन्ध निदेशक), न्यू ऐरा लिजिंग एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड, 981, अग्रवाल मिलेनियम टॉवर-II, नेताजी सभाष प्लेस डिस्टिक्ट सेन्टर, वजीरपर, टीवी टॉवर के सामने, पीतमपरा, नई दिल्ली - 110034. ; ई-मेल: neweraleasingfinance@gmail.com, दूरभाष: 011-69999350.
- 11. कम्पनी एजीएम को भौतिक रूप में संचालित कर रही है लेकिन उपरोक्त प्रावधानों एवं परिपत्र के अनुपालन में, सैतीसवीं एजीएम एवं वित्तीय वर्ष 2020-21की वार्षिक रिपोर्ट सचना की इलेक्ट्रानिक प्रतियाँ सभी कम्पनी के सदस्यों जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपाजटरीज भागीदार/रजिस्ट्रार एण्ड शेयर्स हस्तांतरण एजेन्ट ("आरटीए") के पास अंकित थे, को भेज दी गई हैं।
- 12. एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट साथ में डाऊनलोड भाग http://www.evoting.nsdl.com एवं कम्पनी की वेबसाइट www.neweraleasingfinance.com पर उपलब्ध है।
- 13. ईमेल पते पंजीकरण/अपडेटिंग कराने का तरीका:
- क) जो शेयरधारक भौतिक माध्यम में इक्वीटी शेयर्स धारित जिन्होने अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेटेड नहीं कराये हैं, उनसे आग्रह है कि अपने पैन एवं बेकिंग विवरण कम्पनी/आरटीए के पास उपरोक्त जानकारी लिखित में कम्पनी को neweraleasingfinance@gmail.com पर साथ में हस्ताक्षरित पत्र नाम व शेयरधारक का पते का उल्लेख कर, बैंक विवरण एवं रवअभिप्रमाणित पैन प्रतिलिपि/अन्य पते का कोई प्रमाण प्रस्तृत करें।
- जो शेयरधारक डिमैटरीलाइज माध्यम में शेयर्स धारित करते हो एवं अपना ईमेल पते एवं बैकिंग विवरण डिपाटरीज के पास पंजीकृत/अपडेटेड नहीं कराये हैं, से आग्रह है कि अपने ईमेल पते प्रासांगिक डिनाटरीज भागीदारों के पास पंजीकृत/अपडेट
- 14. ई-वाटिंग द्वारा वोट देने का तरीका : कम्पनी अपने सभी शेयरधारकों को ईजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय में वोट देने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सविधा प्रदान करायेगी। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के लिए लागइन साख शेयरधारकों को ईमेल द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं सेबी (सूची दायत्वों एण्ड प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियमन, 2015 के नियमन 42 प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों की पंजिका एवं शेयर हस्तांतरण किताबें शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 से वीरवार, 30 सितम्बर, 2021 तक (दोनों दिवस शामिल कर) एजीएम के उदेश्य हेत् बंद रहेंगी। (रिकार्ड तिथि: 23 सितम्बर, 2021)

कृते न्यूऐरा लिजिंग एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड

रास विहारी श्रमा

(प्रबन्ध निर्देशक) कार्यालय का पताः 981, अग्रवाल मिलेनियम टॉवर-II, नेताजी सुभाष प्लेस डिस्टिक्ट सेन्टर, वजीरपुर,

टीवी टॉवर के सामने, पीतमपुरा, नई दिल्ली - 110034

तिथि: 08-09-2021 स्थानः नई दिल्ली

(पूर्व में हिमाचल फ्यूचुरिस्टिक कम्युनिकेशंस लि.)

पंजी. कार्यालयः ८, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लैक्स, चम्बाघाट, सोलन, हिमाचल प्रदेश-173213

- CIN: L64200HP1987PLC007466, वेबसाईट: www.hfcl.com/,
- ई-मेल: secretarial@hfcl.com टेली.: 91-1792-230644, फैक्स नं. : 91-1792-231902 34वीं वार्षिक साधारण सभा (ई-एजीएम), ई-वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

(यह 4 सितम्बर, 2021 को ई-एजीएम से संबंधित हमारी पूर्व की सूचना के अधिक्रम में है) एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि

- 1. एचएफसीएल लिमिटेड की 34वीं वार्षिक साधराण सभा (ई-एजीएम) बृहस्पतिवार, 30 सितम्बर, 2021 को 11.00 बजे पूर्वा. (आईएसटी) में एमसीए के साधारण सर्क्युलर्स संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020 तथा 02/2021, तिथि 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 5 मई, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 क्रमशः (''एमसीए सक्युलर्स'') तथा सेबी सर्क्युलर संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी1/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 79 तिथि 12 मई, 2020 तथा सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी2/ सीआईआर/ पी/ 2021/ 11 तिथि 15 जनवरी, 2021 (''सेबी सर्क्युलर'') के साथ पठित सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 ("सेबी सूचीयन विनियमन") के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के लागू योग्य प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के उपयुक्त अनुपालन में 34वीं एजीएम आमंत्रण की सूचना तिथि 3 सितम्बर, 2021 में निर्दिष्ट साधारण तथा विशिष्ट व्यवसायों को निष्पादित करने के लिए विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा आयोजित की जायेगी।
- कम्पनी प्रबंध तथा प्रशासन नियमावली, 2014, यथा-संशोधित के नियम 18 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 101 तथा 136 के अनुपालन में वित्त वर्ष 2020-21 के लिये के विवरण तथा वार्षिक रिपोर्ट के साथ ई-एजीएम में निष्पादित होने वाले व्यवसायों से युक्त सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरीज/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स/ कम्पनी/ आरटीए के पास पंजीकृत हैं तथा जिनके नाम शुक्रवार, 3 सितम्बर, 2021 को कम्पनी की सदस्यों/ डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल हैं। ई-एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाईट www.hfcl.com, स्टॉक एक्सचैंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाईट क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com तथा साथ ही एनएसडीएल की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

3. ई-मेल द्वारा ई-एजीएम की सूचना का प्रेषण 7 सितम्बर, 2021 को पूरा कर लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग) तथा ई-एजीएम के दौरान ई-वोटिंग

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में भौतिक पद्धति अथवा डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयरधारित करने वाले सदस्यों को नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई एजीएम के अन्यत्र स्थल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (''रिमोट ई-वोटिंग'') का उपयोग कर ई-एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है किः

i) ई-एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा ई निष्पादित किया जायेगा,

ii) रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 (9.00 बजे पूर्वा. आईएसटी) में शुरू होगी;

iii) रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 (5.00 बजे अप. आईएसटी) में बंद होगी तथा इस समय के बाद स्वीकृत नहीं होगी;

iv) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों एवं/ अथवा ई-एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट-ऑफ तिथि बृहस्पतिवार, 23 सितम्बर, 2021 है। सदस्यों के मतदान का अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 23 सितम्बर, 2021 को कम्पनी की इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी शेयरों के प्रदत्त मूल्य के अनुपात में होगा।

- v) यदि कोई व्यक्ति ई-एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 23 सितम्बर, 2021 को शेयरधारित करते हैं वे evoting@nsdl.co.in अथवा secretaril@hfcl.com पर कम्पनी को अथवा अपने फोलियो नं./ डीपी आईडी तथा क्लाइन्ट आईडी का उल्लेख करते हुए admin@mcsregistrars.com पर आरटीए एमसीएस शेयर ट्रान्स्फर एजेन्ट लिमिटेड (यूनिटः एचएफसीएल) के पास अनुरोध भेजकर युजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग/ ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो रिमोट ई-वोटिंग/ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान करने के लिए वे अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
- vi) सदस्यगण ध्यान रखें किः
 - क) सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनमित नहीं दी जाएगी;
 - ख) एनएसडीएल प्लेटफार्म पर ई-वोटिंग की सविधा ई-एजीएम में भी उपलब्ध होगी।
 - ग) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों वे ई-एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे;
 - घ) जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा कट-ऑफ तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 23 सितम्बर, 2021 को डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हो, वे रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही साथ एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए

ङ) यदि कोई व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं तो वे केवल जानकारी के लिए ही इस सचना को देखें। vii) रिमोट ई-वोटिंग/ ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया तथा निर्देश ई-एजीएम की सचना ई-मेल द्वारा प्रत्येक शेयरधारक के पास भेज दी गई है।

- viii) रिमोट ई-वोटिंग/ ई-वोटिंग से संबंधित किसी प्रश्न/ समस्याओं के लिए सदस्य www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड खंड में उपलब्ध सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल अथवा सदस्यों के लिए Frequently Asked Questions (FAQs) देखें या टोल फ्री नं. . 1800-222-990 पर कॉल करें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, 4था तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापित बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 से विनिर्दिष्ट ई-मेल पतेः pallavid@nsdl.co.in /evoting@nsdl.co.in या टेलीफोन नं. +91-22-24994545 पर सम्पर्क करें। ix) स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में सम्पूर्ण रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया तथा ई-एजीएम के दौरान ई-वोटिंग का पर्यवेक्षण करने के लिये कम्पनी के निदेशक
- मंडल द्वारा श्री बलदेव सिंह कश्तवाल (एफसीएस-3616 एवं सीओपी नं. 3169), कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत एजीएम में उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिये अधिकृत सदस्य अपनी जगह उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिये प्रॉक्सी की नियुक्ति कर सकते हैं तथा प्रॉक्सी का कम्पनी का सदस्य होना जरुरी नहीं है। चूंकि यह ई-एजीएम एमसीए सर्क्युलर्स तथा सेबी सर्क्यूलर के अनुपालन में वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जा रही है, सदस्यों की शरीरिक उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, एमसीए सर्क्युलर्स तथा सेबी सर्क्युलर के अनुसार सदस्यों द्वारा पॉक्सीज की नियुक्ति की सुविधा इस ई-एजीएम के लिये उपलब्ध नहीं
- होगा और इस प्रकार प्रॉक्सी प्रपत्र, उपस्थिति पर्ची तथा एजीएम की मार्ग निर्देशिका इस सुचना के साथ संलग्न नहीं है। फिर भी, अधिनियम की धारा 112 तथा के अनुसार, जैसा भी मामला हो, अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्त करने के लिये इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों से वीसी/ओएवीएम द्वारा ई-एजीएम में उपस्थित होने तथा रिमोट ई-वोटिंग/ई-एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिये, उनसे आग्रह है कि बोर्ड के प्रस्ताव की एक सत्यापित सच्ची scrutinizer@hfcl.com प्रति पर ई-मेल द्वारा पर्यवेक्षक के पास तथा एनएचडीएल को मार्क की गई उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर तथा secretariat@hfcl.com पर कम्पनी के पास भेजें। मतदान का परिणाम

पर्यवक्षेक के समेकित रिपोर्ट के साथ मतदान का परिणाम कम्पनी की वेबसाईट www.hfcl.com एनएसडीएल की वेबसाईट www.nsdl.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचैंजों अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाईट www.nseindia.com तथा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) www.bseindia.com पर अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा लिखित में अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा के तत्काल बाद प्रदर्शित की जायेगी। वांछित संख्या में मतों की प्राप्ति पर प्रस्तावों को 34वीं वार्षिक साधारण सभा की तिथि अर्थात 30 सितम्बर, 2021 को पारित माना जायेगा।

एतदुद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन

अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की

शेयर अंतरण पुस्तकें ई-एजीएम के उद्देश्य से शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 से बृहस्पतिवार, 30 सितम्बर, 2021 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

(पूर्व में हिमाचल फ्यूचुरिस्टिक कम्युनिकेशन्स लिमिटेड)

(मनोज बैद)

वरिष्ठ उपाध्यक्ष (कार्पोरेट) एवं कम्पनी सचिव

CIN: L28998DL1983PLC017150

क्षेत्रीय निदेशक, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम

2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में

श्री बालकिशन अग्रवाल ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड

प्लॉट नंबर 7, डिस्टिक्ट सैंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 में रिश्चत है, के मामले में,

सरकार को आवेदन किया है।

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन / स्थिति के कारण यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की संभावना है, तो वह व्यक्ति, इसका कारण देते हए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हए जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, इस सूचना के छपने के चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली- 110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कंपनी को पंजीकत पते पर 1005, रूटस टॉवर, प्लॉट नंबर 7, डिस्ट्रिक्ट सैंटर, लक्ष्मी

> कृते श्री बालकिशन अग्रवाल ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड

तिथि: 07.09.2021 स्थान: दिल्ली DIN:00562135

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में

डिजिको सॉल्यूशंस एलएलपी (एलएलपीआईएन : एएटी-0984) जिसका पंजीकृत पता : C/o राहल गर्ग

पत्र राधेश्याम मकान नं 118 दसरी मंजिल दीपाली एन्क्लेव, पीतमपुरा, मदर डेयरी के सामने, नई दिल्ली-110034

सॉल्यूशंस एलएलपी ने सीमित देवता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली और हरियाणा को एक याचिका का प्रस्ताव किया है, जिसमें पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "महाराष्ट्र राज्य", में बदलने की अनुमति मांगी गई है।

आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पर्ते पर भी भेजें। C/o राहुल गर्ग पुत्र राघेश्याम मकान नं 118 दूसरी मंजिल दीपाली एन्क्लेब, पीतमपुरा, मदर डेयरी के सामने, नई

दिनांकः 07 सितंबर 2021 आश्वतोष कुमार भारद्वाज

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 (कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

के मामले में

मनीआर्ट स्मॉल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

आरके प्लाजा सैक्टर 21, फेस-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110086 में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता की पुष्टि की मांग की गई है।

से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो. के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सचना के प्रकाशन की तारीख से वौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

एफ-105 / 106. प्लॉट नं.-5. पहली मंजिल. सीएस/ओसीएफ, आरके प्लाजा सैक्टर 21, फेस-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110086

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से मनीआर्ट स्मॉल फाइनेंस प्राइबेट लिमिटेड

दिनांक : 07.09.2021 स्थान : नई दिल्ली डीआईएन: 03168856

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or with advertisers or otherwise acting on an advertisement in

आकाशदीप मैटल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:14, दयानन्द विहार, बैकसाइड, ग्राऊन्ड फ्लोर, विकास मार्ग एक्सटेन्सन, दिल्ली-110092 Tel: +91-11-43011038; Website: www.akashdeepmetal.in;

Email: info.akashdeep14@gmail.com

सैतीसवीं वार्षिक साधारण बैठक की सार्वजनिक सूचना

एतदद्वारा सुचना प्रदान की जाती है कि आकाशदीप मैटल इन्डस्टीज लिमिटेड के सदस्यों की सैतीसवीं वार्षिक साधारण बैठक ('एजीएम') वृहस्पतिवार, सितम्बर, 30, 2021 को सायं 05:00 बजे (आईएसटी) पर विडियो कानफ्रैसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विजवल माध्यम ("ओएवीएम" स्विधा द्वारा कम्पनीज अधिनियम, 2013 के लागू सभी प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी साधारण परिपत्र दिनांक अप्रैल 8, 2020, अप्रैल 13, 2020 एवं मई 05, 2020 एवं जनवरी 13, 2021 एवं अन्य लागू परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र दिनांक मई 12, 2020 एवं जनवरी 15, 2021 (सेबी परिपत्र) के अनुपालन में एजीएम की सचना में निहित व्यवसाय के निष्पादन हेतु आयोजित की जायेगी। उपरोक्त एमसीए एवं सेबी परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा उन सभी सदस्यों को जिनके ईमेल

आईडीज कम्पनी/डिपोट्रीज के पास उपलब्ध हैं। एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.akashdeepmetal.in, स्टॉक एक्चेन्ज की वेबसाइट www.bseindia.com एवं एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कम्पनी एजीएम के पहले एवं दौरान अपने सभी सदस्यों को अपने वोट देने के लिए

नेशनल सिक्योरीटीज डिपोट्ररीज लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा इलेक्ट्रानिकली एजीएम की सूचना में निहित व्यवसाय के सभी प्रस्ताओं पर अपना वोट देने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की स्विधा प्रदान करा रही है। कम्पनी ने नेशनल सिक्योरीटीज डिपोट्ररीज लिमिटेड (एनएसडीएल) को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा सेवाओं को प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेन्सी नियक्त की गई है। रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) से प्रारम्भ

होकर बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी उपरोक्त तिथि एवं समय के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं होगी। एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों की पंजिका/लाभदाई स्वामी की पंजिका में कट-ऑफ तिथि वृहस्पतिवार, सितम्बर, 23, 2021 को अंकित होगा केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का वार्षिक साधारण बैठक से पहले एवं दौरान हकदार होगा। कट-ऑफ तिथि वृहस्पितवार. सितम्बर 23, 2021 को कोई भी व्यक्ति जिसने एजीएम की सूचना को भेजने के बाद शेयर्स अर्जित किये हों और सदस्य बना हो, यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर आग्रह भेज सकता है। जिन सदस्यों /शेयरधारकों ने ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट नहीं दिया है केवल व

इलेक्ट्रानिकली अपना वोट बैठक के दौरान दे सकते हैं। तदपश्चात एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए ई-वोटिंग मापांक को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। जिन सदस्यों ने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दे दिया है, बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से वोट देने की अनुमति नहीं होगी। रिमोट ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत/पृछताछ के लिए श्रीमती

केशा अंकित चोकसी. कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, ई-मेल info.akashdeep14@gmail.com अथवा पंजीकृत कार्यालय 14, दयानन्द विहार, बैकसाइड, ग्राऊन्ड, विकास मार्ग एक्सटेन्सन, दिल्ली-110092 अथवा 011-43011038 पर सम्पर्क कर कृते आकाशदीप मैटल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

> केशा अंकित चोकसी कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थानः दिल्ली तिथि: 07.09.2021



PNC INFRATECH LIMITED CIN- L45201DL1999PLC195937

REGD. OFFICE: NBCC Plaza, Tower-II, 4th Floor, Pushp Vihar, Sector-V, Saket, New Delhi-110017 CORP. OFFICE: 3/22-D, Civil Lines, Agra-Delhi Bypass Road, Agra-282002 Contact No.: 011-29574800; 0562-4054400; Fax No.:0562-4070011; Website: www.pncinfratech.com,

E-mail: complianceofficer@pncinfratech.com

Notice of the 22nd Annual General Meeting. Book Closure and Electronic Voting Information

NOTICE is hereby given to the Members of the Company and to all the persons that 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, September 29, 2021 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC')/Other Audio Visual Means ('OVAM') in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder (the 'Act'), provisions of the Securities Exchange Board Of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and provisions of General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 02/2021 dated January 13 2021 and all other applicable provision issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ('MCA') read with the SEBI Circular dated May 12, 2020 and dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") to transact the Business, as set out in the Notice of the AGM (AGM Notice) without the physical presence of the Shareholders at a common venue.

In compliance with the aforesaid circulars, the AGM Notice and the Annual Report of the company for the financial year 2020-21, has been electronically sent on Tuesday, September 7, 2021 by the email to those shareholders whose email addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited/ Depository Participant(s). The said Annual Report including AGM Notice is also available on the website of the Company at www.pncinfratech.com, on the website of M/s Link Intime India Private Limited (Link Intime/"RTA") at https://instavote.linkintime.co.in and on the website of the Stock Exchanges i.e BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013

read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, provisions of Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing its shareholders the e - voting facility to cast their votes on all the resolutions set out in the AGM Notice by using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (i.e. remote e - voting). The Company will also provide a facility of e-voting to shareholders during the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting. The Company has entered into an arrangement with Link Intime for providing the remote e- voting and e-voting during the AGM.

In terms of Section 91 of the Act, Rules made there under and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulation') that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 23, 2021 to Wednesday, September 29, 2021 (both days inclusive) for the purpose of said AGM

Mr. Deepak Gupta, Company Secretary, Partner of DR Associates (Membership No. FCS 5339; CP No. 4629), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting through electronic means in a fair and transparent manner. The result of voting will be declared within two working days from the conclusion of AGM i.e. on or before October 01, 2021 and results so declared along with the onsolidated Scrutinizer report will be placed on the Company's website (www.pncinfratech.com) and Link Intime's website (https://instavote.linkintime.co.in).

The Shareholders are hereby requested to note that: a. A person, whose name is recorded in the Register of

- Members/Beneficial owners maintained by the Depositories / RTA as on the cut - off date i.e. Wednesday, September 22, 2021 shall only be entitled to avail the facility of remote e - voting or e - voting during the AGM.
- The remote e-voting period will commence on Sunday, September 26, 2021 at 9.00 AM and will end on Tuesday, September 28, 2021 at 5.00 P.M. During this period, the member(s) of the Company may cast their votes electronically on resolutions mentioned in the AGM Notice. Voting through remote e - voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on September 28, 2021. Once the vote on a resolution is cast by a member, any subsequent change shall not be allowed.
- The voting rights of the shareholders shall be in proportion to their shares in paid-up share capital of the Company as on the cut - off date i.e. Wednesday, September 22, 2021. Only those Shareholders, who will be present in the AGM through
- VC/OAVM and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the 22nd The shareholders who have cast their vote through remote e-voting
- may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Any person, who becomes a member of the Company after sending
- of the AGM Notice by email and holding shares as on Wednesday, September 22, 2021, may refer to the AGM Notice and obtain the login ID and password from Link Intime by sending a request at enotices@linkintime.co.in. g. Shareholders whose email id is not registered, may refer
- "Registration of email ID" as detailed in AGM Notice. In case shareholders/members have any queries regarding

attending AGM/e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions (FAQs') and InstaVote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under help section or Contact Mr. Rajiv Ranjan , Assistant Vice President-e-voting on ■ Phone: +91 22 49186000; email: enotices@linkintime.co.in or contact undersigned by writing an e-mail to complianceofficer@pncinfratech.com, ■Phone no. 0562-4054400. For PNC Infratech Limited

> Tapan Jain Company Secretary & Compliance Officer ICSI M. No.: A22603

स्ट्रेटेजिक ब्रांड इक्विटी लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 59/509, सक्तला बिल्डिंग नेहरू प्लेस नई दिल्ली 110019 CIN: L74899DL1995PLC074454 ईमेलः sbeltd1@gmail.com फोन नंo.: +91 9911076978

एतदद्वारा सुचित किया जाता है: बैठक की सुबना दिनांक 02.09.2021 में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए कंपनी की 26वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 30.09.2021 को प्रातः 11.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 59/509, शक्नतला बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 में आयोजित की जाएगी। सूचना के साथ वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से

भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते 03.09.2021 को कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(वॉ) के साथ

- वार्षिक आम बैठक की सूचना सीढीएसएल वेबसाइट www.evotingindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.sbeltd.in से देखी/बाउनलोड की जा सकती है।
 - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीयन विनियम") के विनियम 42 के अनुसरण में कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक कथित वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन हेतु 28.09.2021 से 30.09.2021 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 जो कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2015 के द्वारा यथसंशोधित किया गया है और सूचीयन विनियम के विनियम 44 के अनुसरण में कंपनी अपने सदस्यों को वार्षिक आम बैठक में निष्पादित किये जाने वाले व्यवसाय के संबंध में सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीठीएसएल) द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है।
- ई-वोटिंग की सूविधा 27.09.2021, सुबर 09:00 से 29.09.2021, शाम 5:00 बजे तक उपलब्ध होगी, उसके बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- इलेक्टॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि 23.09.2021 है। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अधिग्रहित करता है और एजीएम की सचना भेजे जाने के बाद
- कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-आंफ तिथि को शेयर धारण करता है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईसी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपनी वर्तमान यूजर आईडी एवं मासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग की सविधा उपलब्ध होगी। सदस्यगण जिन्होंने एजीएम से पर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिवा है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन

उन्हें एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी। ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ एवं परेशानी के मामले में आप www.evotingindia.com पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) एवं सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या ई-मेल पर मेल भेज सकते हैं या श्री राकेश दल्वी, उप प्रबंधक, सीढीएसएल, ए विंग, 25वां तल, मैराधन यूच्रैक्स, मफतलाल मिल

कम्पाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोखर परेल (ईस्ट), मुम्बई-400013 से या 1800-22-5533 पर

या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते स्ट्रेटेजिक डांड इक्किटी लिमिटेड हस्ता./-मनोज बरेजा

प्रबंध निदेशक

स्थानः दिल्ली विधिः 07.09.2021

हस्ता०/-

DIN: 07071047 टिलेनियम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

सीआईएन :U74899DL1992PLC051008 पंजीकृत कार्यालय : एच-40, मोती बाग-2, मिनी मार्केट, नानक पुरा, नई दिल्ली-110021 ई-मेल : trillenitech@yahoo.co.in

एतद्वारा सुचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं उसके तहत निर्मित नियमों के प्रयोज्य प्रावधानों तथा कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 22/ 2020 दिनांक 15 जून, 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020, तथा परिपत्र सं 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 (एमसीए परिपत्र) के अनुपालन में सदस्यों की किसी कॉमन स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना कम्पनी की उनतीसवीं (29वीं) वार्षिक आम बैठक बृहस्पतिवार, 30 सितम्बर, 2021 को 2.00 बजे अप. वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य श्रव्य साधनों (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 सिहत एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते उपर्युक्त एमसीए परिपत्र के अनुसार कम्पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 कम्पनी की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर र्भ उपलब्ध होगी। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही बैठक में उपस्थित हं सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की परिगणन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के उद्देश्य से की जाएगी हम उन सभी शेयरधारकों से निवेदन हैं जिन्होंने अपने ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए वे बिना किसी बाधा के सभी सूचनाएं उचित समय प प्राप्त करने हेतु ऐसा कर लें। रिकार्ड में ई-मेल पते अपडेट कराने से हमें आपसे विशेष रूप से इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सम्पर्क करने में सहायता मिलेगी।

इस उददेश्य से, हम उन शेयरधारकों से, जिन्होंने अपने ई-मेल पते तथा स्थायी खाता संख्या अपडेट नहीं कराए हैं वे निम्नलिखित लिंक का अनुपालन करके तथा अपने फोलिये नं./डीपी/क्लाइंट आईडी, प्रमाणपत्र सं., पैन, मोबाइल नं. ई-मेल आईडी का उल्लेख करते हुए एवं अपने पैन कार्ड/आधार/वैध पासपोर्ट/शेयर प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्नलिखित लिंक का अनुपालन करके इसे अपडेट करा सकते हैं:

सदस्यों के ई-मेल आईडी तथा बैंक विवरण के पंजीकरण की प्रक्रिया :-

डीमैट जिन सदस्यों के पास कम्पनी इक्विटी शेयर डीमैट प्रारूप में हैं और जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत धारिता नहीं कराए हैं वे इसे कम्पनी के रजिस्टार एवं शेयर अंतरण एजेंट मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेर्ट लिमिटेड के साथ लिंक http://linkintime.co.in/ emailreg/email register.html पर क्लिक करके और उसमें निर्देशित प्रक्रिया का अनुपालन करके अस्थायी रूप से पंजीकृत करा सकते हैं। किर्स पूछताछ के लिए सदस्य मैसर्स लिंक इनटाइम के पास rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर ई मेल भेज सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि अपने डीमैट खाते में ई-मेल पते तथा बैंक विवरण वे स्थायी पंजीकरण हेतु सदस्य संबद्ध डिपॉजिटरी भागीदार ('डीपी') से सम्पर्क करें और डीपी द्वार

निर्देशित पंजीकरण प्रक्रिया का अनुपालन करें। **भौतिक** कम्पनी के इक्विटी शेयर भौतिक प्रारूप में धारण करने वाले तथा जिन्होंने अपने ई-मेल पते तथा/अथव धारिता बैंक खाता विवरण पंजीकृत नहीं कराया है वे इसे कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट मैसर लिमिटेड इनटाइम इंडिया प्राइवेट http://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html पर क्लिक करके और उसमैं

निर्देशित पंजीकरण प्रक्रिया का अनुपालन करके पंजीकृत करा सकते हैं किसी पूछताछ के लिए सदस्य मैसर्स लिंक इनटाइम के पास rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर ई-मेल भेज सकते हैं। यह आपकी सूचना तथा रिकार्ड के लिए है।

मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट नं. एनएच-2, सी-1, ब्लॉक, एलएससी, निकट सावित्री मार्केट

जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

time.co.in

स्थान : नई दिल्ली

उपर्युक्त मामले पर किसी पूछताछ के लिए, कम्पनी के शेयरधारक निम्नलिखित से सम्पर्क करें

दुरभाष : 011-011-49411000, टेलीफैक्स : 011-41410591, ई-मेल : delhi@linkin

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ट्रिलेनियम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

तिथि : 07.09.2021 प्रबंधक निदेशक इंटरनेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड

> सीआईएन : L74899DL1993PLC053034 दूरभाष : 011-42284301, ई-मेल : isl@bol.net.in, वेबसाइट : www.intemationalsecuritiesItd.com

पंजीकृत कार्यालय : स्टेट्समैन हाउस, 148, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001

एतद्वारा सचना दी जाती है कि एजीएम बलाने की सचना में निर्धारित सामान्य व्यवसायों का लेन–देन करने के लिए हिंद सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट्स लिमिटेड के सदस्यों की 28वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') गुरुवार, 30 सितंबर, 202 को 2:00 बजे अप. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (''ओएवीएम'') के माध्यम आयोजित की जाएगी। एमसीए द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की उपर्युक्त वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सुचना कंपनी के सदस्यों को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर ई-मेल द्वारा भेज व गई है। कंपनी ने 6 सितंबर, 2021 को उक्त वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम बुलाने की सूचना ई-मेल द्वारा भेजने क

जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई–मेल पते अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीमैट रूप में धारित शेयरों के संबंध में) या कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में) के साथ पंजीकृत करें सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि 28वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.intemationalsecuritiesItd.com) पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भ

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि समय-समय पर संशोधित प्रासंगिक नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 108 के तहत कंपनी रिमोट ई–वोटिंग (एजीएम से पहले) और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग अपने सदस्यों को 28वें एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान की सुविध प्रदान कर रही है। सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है कि ई-वोटिंग सुविधा के लिए पात्र सदस्यों का पता लगाने के उद्देश्य से कट-ऑफ तिथि गुरुवार, 23 सितम्बर, 2021 के रूप में निर्धारित कर दी गई है। कोई व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे। सदस्यों से यह ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है कि रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया सोमवार, 27 सितंबर, 2021 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और बुधवार, 29 सितंबर, 2021 को शाम 5:00 बजे तक खुली रहेगी। इसके बाद, एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपन वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन

एजीएम के दौरान फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए श्री पनीत कमार पाण्डेय (सदस्यत संख्या A29848 और सीपी संख्या 10913), कार्यरत कम्पनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग. एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश 28वीं एजीएम

की सचना में निहित हैं। सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर मतदान के लिए उपलब्ध है या सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholders का सन्दर्भ र सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in प

ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न या शिकायत को श्री राजीव कुमार गुप्ता, पूर्ण कालिक निदेशक, ई-मेल पता rajeevgupta36@yahoo.co.in, पताः डी-17, ओबेरॉय अपार्टमेंट्स, 2 शामनाथ मार्ग, सिविल लाइन्स, न दिल्ली-110054. संपर्क नं: 011 -42284301 को संबोधित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो ई-मेल के माध्यम से सचना और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद सदस्य बन जाता है, लेकिन कट-

ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और ई-वोटिंग के लिए यजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित विवरण यानी डीपी आईडी और क्लाइंट आईर्ड ' फोलियो नंबर के साथ ई–मेल के माध्यम से एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने के लि आरटीए के पास investor@masserv.com पर और इसकी एक प्रति कम्पनी को मार्क करते हुए निवेदन भेज सकते हैं। यदि शेयरधारक व्यक्तिगत शेयरधारक है और डीमैट मोड में शेयर रखता है तो वह ई-वोटिंग निर्देश में बताए अनसार पासवर्ड जेनरेट कर सकता है।

ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकता है। ऐसे सदस्य रिमोट

चुंकि 28वीं एजीएम पूर्वोक्त परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, अतः सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी एतद्वारा यह भी सचना दी जाती है कि अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार, 28वीं एजीएम के प्रयोजन के लिए सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक्स शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 से गुरुवार, 30 सितंबर 2021 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।

कते इंटरनेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड

राजीव कुमार गुप्त

स्थान : नई दिल्ली (पूर्णकालिक निदेशक तिथि : ७ सितम्बर, २०२१ डीआईएन : 00039399

एचएफसीएल लिमिटेड के लिये entering into any agreements

Date: 7th September, 2021

Place: Agra

www.readwhere.com

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 7.9.2021

प्ररूप संख्या आईएनसी-25ए पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन के लिए

समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

(CIN: U72190DL1990PLC038854) जेसका पंजीकृत कार्यालयः 1005, **रूटस टॉवर**,

...... आवेदक आम जनता को सचना दी जाती है कि कंपनी को संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए दिनांक 31 अगस्त 2021 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पर्वोक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की घारा 14 के अधीन केंद्र

नगर, दिल्ली-110092 में भी भेज दे।

ओं कार नाथ गोयल (निदेशक)

सार्वजनिक सूचना केंद्रीय सरकार के समक्ष, रजिस्टार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली और हरियाणा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **"खिजिको**

एलएलपी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रमावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली और हरियाणा, चौथी मंजिल, 110019 पर पंजीकृत डाक द्वारा या ई-मेल roc.delhi@mca.gov.in पर भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक एलएलपी कंपनी को उनके

डिजिको सॉल्युशंस एलएलपी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए)

(CIN: U67190DL2019PTC351545) जिसका पंजीकृत कार्यालय: एफ-105 / 106, लॉट नं.—5, पहली मंजिल,सीएस / ओसीएफ,

एतदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है. जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'महाराष्ट्र राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए 6 सितंबर 2021 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन

कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण

आशुतोष कुमार भारद्वाज (निदेशक)

any manner whatsoever.